



4th May, 2023

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

NSE Symbol : HAVELLS

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Scrip Code : 517354

Sub: Newspaper Clippings – Economic Times & Jansatta

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 4th May, 2023 wherein Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended 31st March, 2023 have been published.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
for **Havells India Limited**


(Sanjay Kumar Gupta)
Company Secretary

Encl: As above



Coal Min Sets ₹50k-cr Asset Monetisation Target for FY24

Commercial coal mine auctions expected to fetch ₹40,000 cr while ₹10,100 cr of revenues are expected through Coal India, says ministry's FY24 action plan

Our Bureau

New Delhi: The coal ministry has set a ₹50,119-crore asset monetisation target for the current fiscal, much higher than the FY23 target of ₹30,000 crore. Auction of commercial coal mines is expected to fetch ₹40,000 crore while ₹10,100 crore of revenues are expected through Coal India Ltd, as per the action plan for FY24 released by the ministry.

The Coal India component usually comes through revenue sharing of mine development operations, sale of abandoned mines, and long-term outsourcing contracts for hiring equipment for coal extraction, overburden removal and transportation.

Coal India has a ₹16,500-crore capital expenditure plan for FY24, while NLC India is expected to spend ₹2,880 crore and Singareni Collieries Company Ltd ₹1,650 crore.

The ministry has set the coal production target for FY24 at about 1 billion metric tonnes, as stated earlier.

The plan, apart from the expansion of Coal India's core business, also includes diversification of its operations into new areas such as aluminium, power, solar water, and renewable energy among others for sustainable future business

Cashing in on Coal
Commercial coal mines auction to fetch ₹40,000 crore, ₹10,100 crore revenues expected through Coal India

Coal Min's ₹50,119 cr FY24 assets monetisation target much higher than FY23 target of ₹30,000 cr

The ministry has set coal production target for FY24 at about 1 billion tonnes, as stated earlier

The coal ministry, in consultation with the railway ministry, is closely monitoring the new railway line projects that are critical for coal evacuation.

The ministry also plans to launch the coal trading exchange, for which a consultant was appointed in 2020, in the current fiscal.

Coal India has ₹16,500 cr capex plan for FY24, while NLC India is expected to spend ₹2,880 cr and Singareni Collieries Company Ltd ₹1,650 cr

Prasad Set to Take Over as Next Coal India CMD

The Public Enterprises Selection Board has recommended Polavaram Mallikharjuna Prasad as the new chairman and managing director of Coal India Ltd. Prasad is currently serving as head of Central Coalfields Ltd, one of the Coal India subsidiaries. He will succeed the presiding CMD Pramod Agrawal who will superannuate on June 30.



SULA VINEYARDS LIMITED

Registered Office Address: 901, Solaris One, N S Phadke Marg, Andheri (E), Mumbai 400069, Maharashtra, India
Tel: 022-6128 0606/607 Email: info@sulavineyards.com CIN: L15549MH2003PLC130352

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2023

| Sr. No. | Particulars | Quarter ended 31-Mar-2023 (unaudited) | Year ended 31-Mar-2023 (Audited) | Quarter ended 31-Mar-2022 (Audited) |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Total Income | 1,209.03 | 5,567.25 | 1,127.99 |
| 2 | Net Profit before tax | 200.82 | 1,139.78 | 186.15 |
| 3 | Net profit after tax | 142.45 | 840.34 | 135.92 |
| 4 | Total Comprehensive Income | 151.05 | 848.40 | 137.23 |
| 5 | Equity Share Capital (Face value of ₹ 2 each) | 166.52 | 166.52 | 157.20 |
| 6 | Reserves excluding revaluation reserve (i.e. Other Equity) | - | 5,151.93 | - |
| 7 | Earnings per equity share of nominal value ₹ 2 each | | | |
| | Basic (in ₹) | 1.69 | 10.19 | 1.72 |
| | Diluted (in ₹) | 1.69 | 10.18 | 1.72 |

Notes:

1. Additional information on standalone financial results for the quarter and year ended 31 March 2023

| Sr. No. | Particulars | Quarter ended 31-Mar-2023 (unaudited) | Year ended 31-Mar-2023 (Audited) | Quarter ended 31-Mar-2022 (unaudited) |
|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Total Income | 1,186.89 | 5,354.33 | 1,037.63 |
| 2 | Net Profit before tax | 223.96 | 1,182.60 | 171.73 |
| 3 | Net profit after tax | 165.58 | 883.15 | 121.50 |
| 4 | Total Comprehensive Income | 173.23 | 890.32 | 123.36 |

Place: Mumbai

Date: 03 May 2023

For and on behalf of the Board of Directors
Rajeev Samant
CEO and Managing Director

Bombay HC Refuses Interim Relief to ICICI Bank Ex-CEO Chanda Kochhar

Kochhar had filed a suit seeking retirement benefits from private sector lender

Our Bureau

Mumbai: A division bench of the Bombay High Court on Wednesday refused to grant any interim relief to former ICICI Bank chief Chanda Kochhar on her plea for retirement benefits from the lender.



Kochhar, who was fired by the bank after first accepting her request for early retirement in 2018, had filed a suit, seeking specific performance of her contract under the contract law, for the lender to honour its contractual obligations towards the benefits due to her.

The court had refused to pass any interim order. The judge had also directed Kochhar not to do any transactions on the 69,000 shares of ICICI Bank that she claimed had been allotted to her. If she had dealt with any shares, she must disclose that in an affidavit, Justice Chagla had ordered, accepting the bank's plea.

IL&FS Fraud Case: SC Allows SFIO to Prosecute Auditors

Indu.Bhan@timesgroup.com

New Delhi: The Supreme Court on Wednesday allowed the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) to resume criminal proceedings against former auditors of IL&FS Financial Services - BSR & Associates LLC and Deloitte Haskins and Sells LLP - for their role in the alleged financial irregularities at the beleaguered firm.

It also directed the National Company Law Tribunal (NCLT) to decide the government's plea seeking a five-year ban on the auditors for failing to red-flag problems at the lender.

Setting aside the Bombay High Court April 2020 judgment that quashed criminal prosecution initiated against the two firms and their chartered accountants, a bench by Justice MR Shah said the SFIO can proceed with its 2019 criminal complaint before a Greater Mumbai court on its own merits.

The bench said auditors are answerable for accounts statements signed by them even if they resigned later. The financial affairs of IL&FS Group came under scrutiny in 2018 after it defaulted on short-term and long-term debt obligations to the tune of ₹5,91,000 crore. IL&FS Financial Services (IFIN) was audited by BSR, a KPMG-affiliated firm, in FY19 and jointly by BSR and Deloitte in FY18.

Deloitte was the sole auditor of the firm in FY16 and FY17.

Deloitte said that its term as an auditor ended in 2018, while BSR just days after the government moved the ban plea.

The SFIO had filed a criminal complaint against 30 parties in the IL&FS case, including Deloitte and BSR, accusing these auditors of colluding with officials of IFIN to conceal facts and fraudulently falsifying the books of accounts, and thereby financial statements from FY14 to FY18.

The SFIO had claimed that audit firms had acted in breach of auditing standards and had failed to detect financial inconsistencies at IL&FS.



SC also directed NCLT to decide the govt's plea seeking a 5-year ban on the auditors

While upholding the constitutional validity of Section 140(5) of the Companies Act 2013 that deals with the removal and resignation of auditors, the apex court held the provision is not discriminatory, arbitrary, or violative of Articles 14, 19(1)(g) of the Constitution (right to carry on their profession), thus rejecting the stand of the firms.

However, it clarified that it has not expressed anything on the merits of the allegations against the auditors and it is ultimately for the NCLT to pass a final order.



AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Rs. in Crores)

| S.N. | Particulars | STANDALONE | | | | CONSOLIDATED | | | |
|------|--|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Quarter ended | | Year ended | | Quarter ended | | Year ended | |
| | | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 |
| 1 | Total Income | 4896.40 | 4481.21 | 17045.40 | 16048.95 | 4995.92 | 4470.37 | 17089.44 | 14088.92 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) | 498.43 | 474.82 | 1469.25 | 1803.79 | 486.89 | 474.25 | 1447.06 | 1606.56 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 490.43 | 474.82 | 1450.25 | 1803.79 | 486.89 | 474.25 | 1447.06 | 1606.56 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 361.71 | 352.95 | 1074.96 | 1194.73 | 358.04 | 352.48 | 1071.73 | 1198.47 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax)] | 356.65 | 361.71 | 1067.28 | 1200.25 | 352.86 | 361.42 | 1064.00 | 1202.65 |
| 6 | Paid up equity share capital (Face value of Rs. 1/- each) | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 |
| 7 | Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year) | | | 5551.83 (As on 31st Mar'23) | 5028.01 (As on 31st Mar'22) | | | 5562.80 (As on 31st Mar'23) | 5840.26 (As on 31st Mar'22) |
| 8 | Earnings per equity share (EPS) (Nominal value of Rs. 1/- each) (not annualised): | | | | | | | | |
| | a) Basic (Rs.) | 5.77 | 5.84 | 17.16 | 19.06 | 5.71 | 5.63 | 17.11 | 19.11 |
| | b) Diluted (Rs.) | 5.77 | 5.84 | 17.16 | 19.06 | 5.71 | 5.63 | 17.11 | 19.10 |

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website www.havells.com and on the websites of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The Board of Directors of the Company has decided to recommend a Final Dividend of Rs. 1.50 per Equity Share of Rs. 1/- each.

HAVELLS INDIA LIMITED

Regd. Off. 304, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Corporate Off. - ORG Towers, 2D, Sector - 126, Expressway, Noida (U.P.) - 201 304
Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, Web: www.havells.com
Email: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

For and on behalf of the Board
Havells India Limited

(Anil Rai Gupta)
Chairman and Managing Director
Noida, May 03, 2023

JSW PAINTS
PUBLIC NOTICE

We bring to notice of all concerned that certain unscrupulous persons impersonating themselves as employees/agents of JSW Paints Private Limited ('JSW Paints') with an ulterior motive of making wrongful gains and/or with an intent to cheat the public at large, are soliciting money via phishing email/communication (verbal, written and/or any other mode) with a false promise that they shall procure JSW Paints dealership.

We wish to caution the general public at large that JSW Paints has not appointed/authorized any such group/agency/persons for issuing such email/communications for soliciting money and that JSW Paints does not have any such process for appointing a dealer.

We further hereby advise the public at large not to be attracted/fraudulently induced by such communication/solicitation, despite responding to such email/communication would be doing so at their own risk and peril and JSW Paints shall not be liable for any consequences thereof whether directly or indirectly. We hereby clarify that JSW Paints does not call for, solicit or accept money in any form for granting JSW Paints dealership.

You are requested to visit our website <https://www.jswpaints.in> or call our toll free number 1800-121-5297 for any information on JSW Paints dealership. We hereby request everyone to report the aforesaid activities to JSW Paints at the earliest to ceps@jsw.in.

JSW Paints Private Limited (JSW Paints)
Jindal Mansion, 5A Dr. G. Deshmukh Marg, Mumbai - 400026

Amaya BLDG INVENTORY TECHNOLOGY

Hawa ke pollution ko hawa kar do.

LOOK UP TO GREAT DESIGNS TO WIDE RANGE TO ENERGY SAVINGS

PRESENTING THE WIDEST RANGE OF STAR RATED DESIGNER FANS BY HAVELLS. **Hawa Badlegi**

LLOYD Grande Heavy-Duty AC with Powerful Cooling and Air Purification

Let's Re think COOLING
Havells Smart Air Coolers with Breatheeze™ Technology

PM, Filtration, Powerful AI-Delivery Remote Control, Smart

HAVELLS **LLOYD** **Crabtree** **STANDARD** **REO**



गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमसी के कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।
तालकंडा स्टेटियम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 4,400 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रशासनिक नई मोदी ने कई क्षेत्रों में अतिशक्तिताओं को खत्म करने के लिए भी काम किया है।
यही कारण है कि हर कोई कह रहा है मोदी है तो मुक्ति है।

बेटी के सामने पत्नी की गला रेत कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।
बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में धरू लकलह से परेशान शब्द ने 13 साल की बेटी के सामने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पेट में चाकू मार कर आत्महत्या करने की कोशिश की।
महिला को चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायल हालत में दंपति को पास के अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान नेहा (32) के रूप में हुई। वहीं, आरोपी विककी की हालत नाजुक बनी

आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास परिवार में पति के अलावा 13 और पांच साल की दो बेटियां हैं। विककी इन दिनों बेरोजगार था।
हुई है। द्वारका जिला पुलिस उपपुलिस एम हर्षवर्धन ने बुधवार को बताया कि नेहा, मूलरूप से विहार की रहने वाली थीं। फिलहाल वह अपने पति विककी के साथ नजफगढ़ के गोपाल नगर स्थित किराए के मकान में रहती थीं। परिवार में पति के अलावा 13 और पांच साल की दो बेटियां हैं। विककी पहले काम करता था। इन दिनों बेरोजगार था। वहीं, नेहा धरू लकलह का काम करती थी। बताया जा रहा है कि दोनों में अकसर लड़ाई होते रहती थीं।

पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह करीब बी बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान आरोपी ने चाकू से उसका गला रेत दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने पेट में भी कई चाकू मारे। वारदात के समय नेहा की पांच साल की बेटी स्कूल गई थीं, जबकि बड़ी बेटी घर पर ही मौजूद थीं।
आरोपी ने बेटी के सामने ही नेहा की हत्या की। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। जांच के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि परिवार इसी हफ्ते मकान में आया था। इससे पूर्व वह कुछ दूरी पर दूसरे मकान में रहता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

भाजपा नेता की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार


जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।
भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की दफन के अंश गौरी मारकर हत्या करने के मामले में सल्लिम दो और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) की टीम के बीच रोहिणी के जापनी पार्क के पास मंगलवार शाम को मुठभेड़ हुई थी।
गिरफ्तार किए गए बदमाशों की तिलंगपुर, कोटला, दिल्ली निवासी रजत यादव उर्फ पोपल (32) और नजफगढ़ निवासी हबीब अली उर्फ राहुल (23) के तौर पर की गई है।

सरकारी स्कूल की 22 छात्राएं संदिग्ध हालत में हुई बेहोश, अस्पताल में भर्ती

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।
महरीली थाना क्षेत्र के छतपुर में स्थित एक सरकारी स्कूल की 22 छात्राएं अचानक से बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश हो गईं। सभी को इलाज करवाने के लिए सफरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी हालत खतर से बाहर बताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती छानबीन में पता चला है कि छात्राएं एक शिक्षक का जन्मदिन मना रही थीं। सभी अचानक से बेहोश हो गईं। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं, बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में प्रसिद्धि के दौरान छात्राएं बेहोश हुई थीं। पुलिस ने बताया कि छात्राएं छठी व सातवीं कक्षा में पढ़ती हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में आगे की जांच चल रही है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि छात्राएं कैसे बेहोश हो गईं।

भारी बारिश से जलभराव कई स्थानों पर लगा जाम

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।
दिल्ली में भारी बारिश के कारण बुधवार को कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात जाम हो गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें शहर में यातायात जाम और जलभराव से संबंधित कई फोन आए।
बारिश के कारण दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास एक नाले के ऊपर से पानी बहने (ओवरफ्लो) लगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को बुधवार को उत्तम नगर और वसंत कुंज इलाके में जलभराव की दो शिकायतें मिलीं। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण कक्ष को बारिश के कारण भजनपुरा और झिलमिल में पेड़ गिरने की सूचना मिली है और बुध विहार इलाके में एक इमारत को आंशिक नुकसान



AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Rs. in Crores)

| S.N. | Particulars | STANDALONE | | | | CONSOLIDATED | | | |
|------|--|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | Quarter ended | | Year ended | | Quarter ended | | Year ended | |
| | | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 |
| 1 | Total Income | 4896.40 | 4461.21 | 17045.40 | 14048.95 | 4905.92 | 4470.37 | 17088.44 | 14098.92 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) | 490.43 | 474.92 | 1450.25 | 1603.79 | 486.69 | 474.25 | 1447.06 | 1606.56 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 490.43 | 474.92 | 1450.25 | 1603.79 | 486.69 | 474.25 | 1447.06 | 1606.56 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 361.71 | 352.95 | 1074.95 | 1194.73 | 358.04 | 352.48 | 1071.73 | 1196.47 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/Loss) for the period and Other Comprehensive Income (after tax) | 356.65 | 361.71 | 1067.28 | 1200.25 | 352.86 | 361.42 | 1064.00 | 1202.65 |
| 6 | Paid up equity share capital (Face value of Re. 1/- each) | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 | 62.65 | 62.63 |
| 7 | Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year) | | | 6551.83 | 5926.01 | | | 6562.80 | 5940.26 |
| | | | | (As on 31st Mar'23) | (As on 31st Mar'22) | | | (As on 31st Mar'23) | (As on 31st Mar'22) |
| 8 | Earnings per equity share (EPS) (Nominal value of Re. 1/-each) (not annualised): | | | | | | | | |
| | a) Basic (Rs.) | 5.77 | 5.64 | 17.16 | 19.08 | 5.71 | 5.63 | 17.11 | 19.11 |
| | b) Diluted (Rs.) | 5.77 | 5.64 | 17.16 | 19.08 | 5.71 | 5.63 | 17.11 | 19.10 |

Notes:-
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial results are available on company website www.havells.com and on the websites of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.
2. The Board of Directors of the Company has decided to recommend a Final Dividend of Rs. 4.50 per Equity Share of Re. 1/- each.

HAVELLS INDIA LIMITED
Regd. Off.: 904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K G Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Corporate Off.: ORG Towers, D2, Sector - 126, Expressway, Noida (U.P.) - 201 304
Tel. # 0120-3331000, Fax # 0120-3332000, Web: www.havells.com
Email: investors@havells.com, CIN - L31900MD1983PLC016304

For and on behalf of the Board
Havells India Limited
(Anil Rai Gupta)
Chairman and Managing Director
Noida, May 03, 2023

2A, RBL Isher Das Sawhney Marg, Rajpur Road, Delhi-54



LOOK UP
TO GREAT DESIGNS
TO WIDE RANGE
TO ENERGY SAVINGS

Hawa Badlegi



Hawa ke pollution ko hawa kar do.

LLOYD Grade Heavy-Duty AC
with Powerful Cooling and Air Purification



Let's Rethink COOLING
Havells Smart Air Coolers
with Breatheeze Technology

PM2.5 Filtration, Powerful Air-Delivery, Remote Control







PERA CET-2023






IMPORTANT DATES

Last Date of Application: 20th May 2023

PERA CET Test Dates: 25th, 26th, 27th May 2023

Result Declaration: 02nd June 2023

MEMBER UNIVERSITIES

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| mgmu.ac.in | mituniversity.ac.in | vupune.ac.in | sanjayghodawatuniversity.ac.in |
|  |  |  |  |
| sandipuniversity.edu.in | sau.edu.in | sppu.ac.in | mitwpu.edu.in |
|  |  |  |  |
| dyplu.ac.in | dypatiluniversity.edu.in | www.dypatil.org | sbpu.edu.in |
|  |  |  |  |
| adypu.edu.in | vijaybhoomi.edu.in | somaia.edu | nicmar.ac.in |
|  |  |  |  |
| pcu.edu.in | drpaiu.edu.in | flame.edu.in | jspmuni.edu.in |

Preeminent Education & Research Association (PERA) is an esteemed federation of State Private Universities in Maharashtra. To seek admissions into the Member Universities of PERA, an online Common Entrance Test (PERA CET-2023) is scheduled across India for the following Professional Programs.

UG & PG PROGRAMS

Engineering | Bioengineering | Food Technology
Marine Engg. | Agri. Engg. | Pharmacy | Fine Arts
Design | Management | Law | Education
Architecture (M. Arch / M. Plan)

Apply Online : www.peraindia.in

Follow us: 

info@peraindia.in | 96 06 04 69 68